







RAJIV LOCHAN AYURVED
Chandkuri-

विषय एवं विकासक्रम	चित्र
0-3 वर्ष	
3-4 वर्ष	
4-5 वर्ष	
5-6 वर्ष	
6-7 वर्ष	
7-8 वर्ष	
8-9 वर्ष	
9-10 वर्ष	

विकास & शब्दार्थ	फंक्शंस	फलक शब्दार्थ
विकास 01-3 वर्ष	विकासीय रूप से शारीरिक रूप से बच्चे को समर्थन देना।	शारीरिक विकास, शब्दार्थ, सोच, भावना, व्यवहार, आदि, अनेक प्रकार के
विकास 02-3 वर्ष	बच्चे को समर्थन देना और उसे प्रोत्साहित करना।	बच्चे को समर्थन देना और उसे प्रोत्साहित करना।
विकास 03-3 वर्ष	बच्चे को समर्थन देना और उसे प्रोत्साहित करना।	बच्चे को समर्थन देना और उसे प्रोत्साहित करना।
विकास 04-3 वर्ष	बच्चे को समर्थन देना और उसे प्रोत्साहित करना।	बच्चे को समर्थन देना और उसे प्रोत्साहित करना।
विकास 05-3 वर्ष	बच्चे को समर्थन देना और उसे प्रोत्साहित करना।	बच्चे को समर्थन देना और उसे प्रोत्साहित करना।
विकास 06-3 वर्ष	बच्चे को समर्थन देना और उसे प्रोत्साहित करना।	बच्चे को समर्थन देना और उसे प्रोत्साहित करना।
विकास 07-3 वर्ष	बच्चे को समर्थन देना और उसे प्रोत्साहित करना।	बच्चे को समर्थन देना और उसे प्रोत्साहित करना।
विकास 08-3 वर्ष	बच्चे को समर्थन देना और उसे प्रोत्साहित करना।	बच्चे को समर्थन देना और उसे प्रोत्साहित करना।
विकास 09-3 वर्ष	बच्चे को समर्थन देना और उसे प्रोत्साहित करना।	बच्चे को समर्थन देना और उसे प्रोत्साहित करना।
विकास 10-3 वर्ष	बच्चे को समर्थन देना और उसे प्रोत्साहित करना।	बच्चे को समर्थन देना और उसे प्रोत्साहित करना।

2 वर्ष	<ul style="list-style-type: none"> • एक साल के बच्चे का वजन लगभग 12 कि.ग्रा. होना चाहिए। • दो साल के एक साल के बच्चे के बराबर होना चाहिए। • दो साल के बच्चे का वजन लगभग 12 कि.ग्रा. होना चाहिए। • दो साल के बच्चे का वजन लगभग 12 कि.ग्रा. होना चाहिए। 	
2.5 वर्ष	<ul style="list-style-type: none"> • 50 साल तक बढ़ना चाहिए। • किसी वस्तु को उठाकर खाने में डालना चाहिए। • दो साल के बच्चे का वजन लगभग 12 कि.ग्रा. होना चाहिए। 	
3 वर्ष	<ul style="list-style-type: none"> • पहिले बच्चे को पहिले बच्चे के बीच में बढ़ाकर डालना चाहिए। • दुसरे बच्चे को साथ डालना चाहिए। 	
4 वर्ष	<ul style="list-style-type: none"> • खिले-खिले बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए। • खिले-खिले बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए। • खिले-खिले बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए। 	
5 वर्ष	<ul style="list-style-type: none"> • पहिले बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए। • पहिले बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए। • पहिले बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए। 	

मार्गदर्शक-
 डॉ. विष्णु कान्त पाठक (विभागाध्यक्ष)
 डॉ. भद्रु प्रताप पाठक (सहायक प्राध्यापक)
 संतुलित विभाग

Health status Height and weight Blood pressure Vision Hearing Dental Immunization	Health status Height and weight Blood pressure Vision Hearing Dental Immunization	Health status Height and weight Blood pressure Vision Hearing Dental Immunization	Health status Height and weight Blood pressure Vision Hearing Dental Immunization
---	---	---	---



2 से 25 तक पहाडा

एकम	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
दूनी	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
तिघा	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75
चोंक	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100
पंचे	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
षक्के	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150
सत्ते	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175
ठे	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200
न्या	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	180	189	198	207	216	225
दाहम	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250

वर्णित के पिट्ठ

- + - धन - जोड़ना
- - ऋण - घटाना
- X - गुणा
- ÷ - भाग
- - या / बटे
- < - छोटा है
- > - बड़ा है
- = - बराबर
- X - प्रतिशत
- - घुंघु
- - हल
- - दम





49	56	63	70
8	56	64	72
4	63	72	81
0	70	80	90

72	78	84	90	96	102	108	114	120
84	91	98	105	112	119	126	133	140
96	104	112	120	128	136	144	152	160
108	117	126	135	144	153	162	171	180
120	130	140	150	160	170	180	190	200

84	88	92	96	100
105	110	115	120	125
126	132	138	144	150
147	154	161	168	175
168	176	184	192	200
189	198	207	216	225
210	220	230	240	250

X - गुणा
÷ - भाग
- - - - -



REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA



Handwritten text on a yellow poster on the right wall, partially visible.

- परिवार वाले को बागीलाप के बीच में रखने कोलने लगते हैं।
- दूधने बच्ची को साध खोलने लगता है।
- छोटे-छोटे सवाल को उत्तर देने लगते हैं।
- रंगों को पहचान कर नाम बताने लगते हैं।
- कमरों के बटन को खोलने लगते हैं।
- अपने परिवार वालों की सहायता करने लगते हैं।
- बिचमों का पालन करने लगते हैं।
- अपने नामों को बूझवने को खोलने लगते हैं।
- कविता गाने लगते हैं।

प्रस्तुतकर्ता -
 विष्कार, उर्मिला, दुर्गेत,
 उपेन्द्र

Topic	Content	Page
परिवार	परिवार के सदस्यों को पहचानना और उनके नाम बताना।	1
रंग	रंगों को पहचानना और उनके नाम बताना।	2
बटन	कमरों के बटन को पहचानना और खोलना।	3
सहायता	अपने परिवार के सदस्यों की सहायता करना।	4
पालन	बिचमों का पालन करना।	5
नाम	अपने नामों को बूझवना।	6
कविता	कविता गाना।	7





NUMBERS NAME	FRUITS NAME	VEGETABLES NAME	WILD ANIMALS NAME	Interrogative
1 - One	Apple - सेब	Carrot - गाजर	Bear - बियर - भालू	What - क्या
2 - Two	Banana - केला	Tomato - टोमेटो	Elephant - एलिफैंट - हाथी	When - कब
3 - Three	Orange - संतर	Brinjal - ब्रिंजल - बैंगन	Tiger - टाइगर - बाघ	Why - क्यों
4 - Four	Grapes - ग्रेप	Peas - पीस - मटर	Fox - फॉक्स - लोमड़ी	Who - कौन, किस
5 - Five	Mango - आम	Okra - अमू	Rabbit - रैबिट - खरगोश	Whom - किले, किसको, किसे
6 - Six	Pineapple - अनार	Spinach - स्पिनाच		Which - कौन सा
7 - Seven	Watermelon - तरबूज	Cauliflower - कौलीफ्लॉवर		Whose - किसका
8 - Eight	Guava - अमरुत	Beetroot - बीटरूट		Where - कहाँ
9 - Nine	Lemon - नींबू	Broccoli - ब्रोकली		How - कैसे
10 - Ten	Jackfruit - जैकफ्रूट	Asparagus - अस्परागस		How many - कितना, कितनी
11 - Eleven	Pomegranate - अनार			How much - कितना
12 - Twelve	Coconut - काजू			



